



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]
No. 341]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2007/चैत्र 9, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2007/CHAITRA 9, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

का.आ. 500(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सेक्शन) और मुजफ्फरपुर बाईपास (आरंभिक स्थान रा.रा. 77 का 46.300 कि.मी. और अन्तिम स्थान रा.रा. 28 का 515.200 कि.मी.) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में क्रमशः विनिर्दिष्ट जिलों, तालुकों/ब्लॉक, पुलिस थानों और गाँवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सेक्शन) और मुजफ्फरपुर बाईपास (आरंभिक स्थान रा.रा. 77 का 46.300 कि.मी. और अन्तिम स्थान रा.रा. 28 का 515.200 कि.मी.) पर भूमि अर्जन।

| क्रम सं. | सक्षम प्राधिकारी | भूखंड | जिला | तालुका/ब्लॉक | पुलिस थाना | गांव का नाम |
|----------|---------------------------------|---|--------|--------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | जिला भूमि अर्जन अधिकारी, वैशाली | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 का 0.00 कि.मी. से 29.220 | वैशाली | 1. हाजीपुर | हाजीपुर | (1) युसूफपुर दीधी खुर्द (2) नौरांगा बाद (3) बाघ असदुल्ला आरीज (4) चकफजूल्ला (5) दीधी कला |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----------|--------------|------|-------------------------|---|
| | | | हाजीपुर-जारी | (6) | जगदीशपुर | |
| | | | | (7) | झुगीयामल | |
| | | | | (8) | सरीफाबाद | |
| | | | | (9) | खुरीखुर्द | |
| | | | | (10) | दौलतपुर देवरिया | |
| | | | | (11) | प्राणपुर वरई | |
| | | | | (12) | हरिहरपुर शंकर | |
| | | | | (13) | हरिहरपुर रजौली | |
| | | | | (14) | फतेहपुर एकारा | |
| | | | | (15) | घोषवर | |
| | | | | (16) | गुरमीयान | |
| | | | | (17) | चक्रतुपुर मतवलिया | |
| | | | | (18) | काजीपुर धारन | |
| | | | | (19) | कतुपुर एकारा | |
| | | | | (20) | एकारा | |
| | | | | (21) | चक चमेली | |
| | | | | (22) | अफतपुर धोबीघाट | |
| | | | | (23) | चक्रमुरद | |
| | | | | (24) | चक्रमुरद | |
| | | | | (25) | वाजीदपुर | |
| | | | | (26) | मीरनगर अजी | |
| | | 2. भगवान- | भगवानपुर | (1) | रत्नपुरा | |
| | | | पुर | | | |
| | | | | (2) | तेलीया सराय | |
| | | | | (3) | अकबर मलाही | |
| | | | | (4) | मझौली महम्मदपुर बुजुर्ग | |
| | | | | (5) | मटियारा टोक | |
| | | | | (6) | मटियारा टोला | |
| | | | | (7) | जाहगिरपुर पटेरा | |
| | | | | (8) | सैदपुर पटेरा | |
| | | | | (9) | पटेरा खास | |
| | | | | (10) | मुजफ्फरपुर मलाही | |
| | | | | (11) | भगवनपुर पटेरा | |
| | | | | (12) | अखियापुर पटेरा | |
| | | | | (13) | खुनाथपुर इमादपुर | |
| | | | | (14) | शामपुर | |
| | | | | (15) | मियाँ बैरा | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------------------|--|------------|----------------|--------|--|
| | | | | भगवान पुर-जारी | | (16) पट्टी बन्धूराम (17) बिठौली अनरूप (18) रसूलपुर पट्टी (19) सैदपुर बिजली (20) रामपुर असूरा (21) किरतपुर राजा राम (22) महमदपुर हरी (23) वफापुर वानथू (24) हरवंशपुर वानथू सैदपुर (25) सतपुर (26) असथपुर सैदपुर (27) शम्भू पुर (28) महम्मदाबाद (29) भागवतपुर पटेहा (30) रामपुर गौसन दास (31) वारिशपुर माल (32) वारिशपुर पट्टी (33) चाकियाकुव (चकमाकुन) (34) हरपुर कसतुरी (35) वारिशपुर पट्टी (36) गोरिया गोरिया चमन |
| | | | 3. गोरील | गोरील | | (1) भीखनपुर (2) इनायतनगर रसूलपुर (3) मकदुमपुर (4) मुस्तफापुर हरशेर (5) मोहम्मदपुर दरिया (6) बहादुरपुर (7) चैनपुर भटौलिया (8) चैनपुर भटौलिया (9) भटौलिया (10) इसलामपुर (11) कटरमाला (12) सिरबाग (13) सदुल्लापुर |
| 2. | जिला भूमि अर्जन अधिकारी, मुजफ्फरपुर | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 का 29.220 कि.मी. से 46.300 तक और मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर | 1. कुढ़नी | कुढ़नी | (1) किशुनपुर बेलौर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|------------|----------------------------|
| | बाईपास (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 के कि.मी. 46.300 से प्रारंभ होने वाला एवं रा.रा. संख्या 28 के कि.मी. 515.200 कि.मी. तक | | | | | |
| | | | | | कुदनी-जारी | (2) फकूली |
| | | | | | | (3) चकवीर उर्फ मादापुर गौस |
| | | | | | | (4) दोदी लाला |
| | | | | | | (5) दोदी आनन्द कारी |
| | | | | | | (6) विशुनपुर मंगर |
| | | | | | | (7) रजला |
| | | | | | | (8) फतेहपुर कस्तुरी |
| | | | | | | (9) फतेहपुर अतबल |
| | | | | | | (10) बलिया |
| | | | | | | (11) कमतौल जगदीश |
| | | | | | | (12) कमतौल अनन्त |
| | | | | | | (13) माधोपुर कपूर |
| | | | | | | (14) शेखवाड़ा |
| | | | | | | (15) बाजीदपुर |
| | | | | | | (16) चन्दरी |
| | | | | | | (17) कुशुनपुर मोहन |
| | | | | | | (18) कुशुनपुर मोहन |
| | | | | | | (19) धूमहा |
| | | | | | | (20) तरकी |
| | | | | | | (21) सकरी सरैया |
| | | | | | | (22) बाकरपुर |
| | | | | | | (23) कफेन दरियापुर |
| | | | | | | (24) मधोल |
| | | | | | | (25) खाकापारा |
| | | | | | | (26) बाजीदपुर कौंदरिया |
| | | | | | | (27) सामेरा उर्फ अफजलपुर |
| | | | | | | (28) खगेना |
| | | | | | | (29) मादापुर गेयती |
| | | | | | | (30) लदौर |
| | 2. मुशहरी सदर | | | | | (1) मादापुर चौबे |
| | | | | | | (2) परमानन्दपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----------|-------|---|----------|---|
| | | | | | सदर-जारी | (3) चौसीवान (4) धर्मपुर (5) मधुवनी (6) चश्मा (7) पकड़ी इसमाईल (8) खबड़ा उर्फ किरतपुर गुरदास (9) पताही उर्फ पताही रूप (10) डुमड़ी उर्फ दामोदरपुर शाहजहाँ |
| | | 3. कांटी | कांटी | | | (1) लस्करीपुर (2) सदातपुर (3) मधुवन जगदीश उर्फ बझीला (4) यदूधर्मपुर छपरा (5) बारमतपुर (6) शहवाजपुरा (7) हिछड़ा (8) पानापुर हवेली (9) रामपुरशाह (10) चकनौटा उर्फ हरपुर लाहौरी |
| | | | | | करजा | (11) रायपुरा (12) रूपौली (13) रूपवारा (14) रसूलपुर (15) नावादा (16) पकोही खास (17) शाहपुर (18) माधोपुर मचिया (19) हरपुर गणेश (20) बथना राम (21) मधुवन |

[फ. सं. भारराप्र/बीओटी-II/11019/13/2003 (पीटी)-एलए-35]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2007

S.O. 500(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule below as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluks, police stations and villages mentioned in columns (4), (5), (6) and (7),

1912 GI/07-2

respectively, of the said Schedule for building (widening/four laning, etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No. 77 (Hajipur-Muzaffarpur Section) and Muzaffarpur Bypass (starting point km 46.300 of NH 77 and terminating at km 515.200 of NH 28) in the State of Bihar.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 77 (Hajipur-Muzaffarpur Section) and Muzaffarpur Bypass (starting point km 46.300 of NH 77 and terminating point at km 515.200 of NH 28) in the State of Bihar

| Sl. No. | Competent authority | Stretch of land | District | Taluk/block | Police station | Name of village |
|---------|---|---------------------------------|----------|---------------|----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | District Land Acquisition Officer, Vaishali | Km. 0.00 to Km. 29.220 of NH-77 | Vaishali | 1. Hajipur | Hajipur | (1) Usufpur Digghi Khurd (2) Nauranga Bad (3) Bagh Asdullah Aariz (4) Chakfazula (5) Digghi Kalan (6) Jagdishpur (7) Jhuriyama (8) Sarifabad (9) Khuri Khurd (10) Daulatpur Devria (11) Pranpur Varai (12) Hariharpur Shankar (13) Hanharpur Rajauli (14) Fatehpur Ekara (15) Goshwar (16) Gurniyan (17) Chakkatpur Matwaliya (18) Kajipur Yaran (19) Kutupur Ekara (20) Ekara (21) Chak Chameli (22) Afalpur Dhobighat (23) Chakmurad (24) Chakmurad (25) Wajidpur (26) Meernagar Arji |
| | | | | 2. Bhagwanpur | Bhagwanpur | (1) Ratanpura (2) Telia Sarai (3) Akbar Malahi (4) Majholi Mahmudpur Bujurg (5) Matiyara Tok (6) Matiyara Tola |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-----------|-----|------------------|---|
| | | | | | Bagwanpur-Contd. | (7) Jahagir Paterha (8) Saidpur Paterha (9) Patreha Khas (10) Muzaffarpur Malahi (11) Bhagwatpur Patreha (12) Akhtiarpur Paterha (13) Raghunathpur Imadpur (14) Shampur (15) Miyan Vairo (16) Patti Bandhuram (17) Bitholi Anuroop (18) Rasulpur Patti (19) Saidpur Bijli (20) Rampur Asurpur (21) Kiratpur Raja Ram (22) Mahmudpur Hari (23) Wafapur Bandhu (24) Harwanshpur Banthu Saidpur (25) Satpur (26) Asathpur Saidpur (27) Shambhupur (28) Mahmdabad (29) Bhagwatpur Patreha (30) Rampur Gosan Das (31) Warispur Mail (32) Barishpur Patti (33) Chakiyakub (Chakmakun) (34) Harpur Kasturi (35) Barishpur Patti (36) Gorla Chaman |
| | | | 3. Goroul | | Goroul | (1) Bheekhanpur (2) Inayatnagar Rasulpur (3) Makhdumpur (4) Mustafapur Harser (5) Mohammadpur Daria (6) Bahadurpur (7) Chainpur Bhatolia (8) Cainpur Bhatolia (9) Bhatolia (10) Islampur (11) Katarmala |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--|---|-------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | Goraul-Contd. | (12) Sirbag (13) Sadullapur |
| 2 | District Land Acquisition Officer, Muzaffarpur | km. 29.220 to km 46.30 of NH-77 and Muzaffarpur, Bypass (starting point km 46.300 of NH 77 and terminating point at km 515.200 of NH28) | Muzaffarpur | 1. Kurhani | Kurhani | (1) Kishunpur Bellow (2) Phakuli (3) Chakbir urf Madapur Gos (4) Dhodhi Lala (5) Dhodhi Anand Kari (6) Bishunpur Mangar (7) Rajla (8) Fatehpur Kasturi (9) Fatehpur Atbal (10) Balia (11) Kamtol Jagdish (12) Kamtol Anant (13) Madhopur Kapoor (14) Shekhwara (15) Bajidpur (16) Chanhathi (17) Kushunpura Mohan (18) Kushunpura Mohan (19) Thumha (20) Turki (21) Sakri Saraiya (22) Bakarpur (23) Kafan Dariapur (24) Madhol (25) Khakopara (26) Bajidpur Kondria (27) Sumera urf Afzalpur (28) Kharona (29) Madapur Raiti (30) Ladora (1) Madapur Choube |
| | | | | 2. Mushahri | Sadar | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|----------|-------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | Sadar-Contd. | (2) Parmanandpur |
| | | | | | | (3) Chousiwan |
| | | | | | | (4) Dharampur |
| | | | | | | (5) Madhubani |
| | | | | | | (6) Chasma |
| | | | | | | (7) Pakri Ismail |
| | | | | | | (8) Khabra urf Kiratpur Gurdas |
| | | | | | | (9) Patahi urf Patahi Roop |
| | | | | | | (10) Dumri urf Damodarpur Shahjahan |
| | | | 3. Kanti | Kanti | | (1) Laskaripur |
| | | | | | | (2) Sadatpur |
| | | | | | | (3) Madhuban Jagdish urf Bajhila |
| | | | | | | (4) Yadudharampur Chhapra |
| | | | | | | (5) Barmatpur |
| | | | | | | (6) Shahbajpur |
| | | | | | | (7) Hichhda |
| | | | | | | (8) Panapur Haveli |
| | | | | | | (9) Rampurshah |
| | | | | | | (10) Chiknota urf Harpur Lahori |
| | | | | | Karja | (11) Raipura |
| | | | | | | (12) Roopoli |
| | | | | | | (13) Roopwara |
| | | | | | | (14) Rasulpur |
| | | | | | | (15) Nawada |
| | | | | | | (16) Pakohi Khas |
| | | | | | | (17) Shahpur |
| | | | | | | (18) Madhopur Machiya |
| | | | | | | (19) Harpur Ganesh |
| | | | | | | (20) Bathna Ram |
| | | | | | | (21) Madhuban |

[No. NHAI/BOT-II/11019/13/2003(pt)-LA-35]

PRABHAKAR, Dy. Secy.